



वर्ष राष्ट्र के विद्युतीकरण और सशक्तिकरण के

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		31-03-2019 (लेखापरीक्षित)	31-12-2018 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2018 (लेखापरीक्षित)	31-03-2019 (लेखापरीक्षित)	31-03-2018 (लेखापरीक्षित)	31-03-2019 (लेखापरीक्षित)	31-03-2018 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	6,671.81	7,253.76	5,940.09	25,309.72	22,454.62	25,399.02	22,651.60
2.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व एवं असाधारण मर्दे)	1,634.30	1,829.91	982.97	8,100.50	5,884.15	8,090.44	5,957.52
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (असाधारण मर्दों के पश्चात)	1,634.30	1,829.91	982.97	8,100.50	5,884.15	8,090.44	5,957.52
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (असाधारण मर्दों के उपरांत)	1,256.13	1,274.56	839.40	5,763.72	4,419.89	5,741.38	4,450.52
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए सम्मिलित लाभ (कर उपरांत) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	1,216.78	1,341.81	745.21	5,703.18	4,424.13	5,680.79	4,456.19
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
7.	अन्य इक्विटी (31 मार्च की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार)	32,328.02		30,328.23	32,328.02	30,328.23	32,571.42	30,612.69
8.	प्रति शेयर आय (प्रति ₹ 10) (आगे जारी रहने वाले एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए) (₹ में)	6.36	6.45	4.25	29.18	22.38	29.07	22.54
	मूल	6.36	6.45	4.25	29.18	22.38	29.07	22.54
	डायल्यूटेड	6.36	6.45	4.25	29.18	22.38	29.07	22.54

टिप्पणियां:

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित रोडमैप के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड-एएस) को अपनाया है और तदनुसार, ट्रांजिशन की तिथि 01 अप्रैल, 2017 है। वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के स्वीकार्य एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। ट्रांजिशन के प्रभाव की गणना भारतीय लेखाकरण मानक 101 'भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण' की अपेक्षाओं के अनुरूप 01 अप्रैल 2017 को आरंभिक रिजर्व में की गयी है। ये वित्तीय परिणाम भारतीय लेखाकरण मानकों के आधार पर लिए गए हैं जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति

के अनुसार कंपनी पर लागू हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग III के अनुसार तैयार किए गए हैं जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं तथा 11 अक्टूबर, 2018 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। तदनुसार आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप होने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियमकों द्वारा जारी कोई भी अनुप्रयोग/दिशा-निर्देश/निर्देश उनके जारी होने पर अपनाए/कार्यान्वित किए जाएंगे।

- भारतीय लेखाकरण मानक 101 'भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण' के पैरा 32 की अपेक्षाओं के संदर्भ में, पिछले जीएपी और इंड-एएस के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए निवल लाभ का मिलान निम्नवत है:

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निवल लाभ का मिलान (रिकंसिलिएशन)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित
		31.03.18 को समाप्त तिमाही	31.03.18 को समाप्त वर्ष	31.03.18 को समाप्त वर्ष
क	अवधि के लिए निवल लाभ जैसा कि पिछले जीएपी के तहत रिपोर्ट किया गया	834.79	4,647.00	4,689.46
ख	जोड़ें/ घटाएं) – इंड-एएस समायोजन			
(i)	आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और उसके बाद परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	13.13	37.70	37.70
(ii)	आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और उसके बाद परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का मापन	(12.08)	(84.16)	(84.16)
(iii)	अपेक्षित ऋण हानियों के लिए भत्ता	(638.80)	(875.38)	(878.51)
(iv)	मार्क टू मार्केट आधार पर व्युत्पन्नों का मापन	366.96	(59.06)	(59.06)
(v)	इंड एस समायोजनों के कारण संयुक्त उद्यम के अवितरित रिजर्व में परिवर्तन का शेयर			1.47
(vi)	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वितरित न किए गए रिजर्व पर कर प्रभाव			(11.07)
(vii)	अन्य विविध समायोजन (पूर्व अवधि सहित)	(11.26)	12.96	12.78
	कुल समायोजन	(282.05)	(967.94)	(980.85)
	उपयुक्त समायोजनों का आय कर प्रभाव	(113.02)	33.40	34.48
	अनुपयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अधिक रिजर्व में संचित नुकसान भत्ते पर कर प्रभाव	399.68	707.43	707.43
ग	इंड एस के अनुसार निवल लाभ (क+ख)	839.40	4,419.89	4,450.52
घ	अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(94.19)	4.24	5.67
ङ	इंड एस के अनुसार कुल व्यापक आय (कर का निवल) (ग+घ)	745.21	4,424.13	4,456.19

(ख) 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 को इक्विटी का मिलान (रिकंसिलिएशन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	01-04-17 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार	01-04-17 के अनुसार	31-03-18 के अनुसार
पिछले जीएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारकों की निधियां)	33,325.59	35,490.51	33,670.56	35,872.30
समायोजन:				
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और उसके बाद परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	(109.02)	(71.32)	(109.02)	(71.32)
आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और उसके बाद परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का मापन	332.23	248.07	332.23	248.07
उचित मूल्य पर निवेश का मापन	201.82	239.71	201.82	239.71
ऋण परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि को मानना	(5,501.19)	(6,405.99)	(5,533.58)	(6,441.51)
मार्क टू मार्केट आधार पर व्युत्पन्नों का मापन	71.50	(178.21)	71.50	(178.21)
इंड एस समायोजनों के कारण संयुक्त उद्यम के वितरित न किए गए रिजर्व में परिवर्तन का हिस्सा			0.20	3.48
अनुबंधी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के वितरित न किए गए रिजर्व पर आस्थगित कर प्रभाव			(65.87)	(76.95)
अन्य विविध समायोजन	2.69	9.32	2.69	9.32
पूर्व अवधि मर्दे (निवल)			(0.45)	(0.63)
अनुपयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अधिक रिजर्व में संचित नुकसान भत्ते पर कर प्रभाव	2,272.18	2,979.61	2,272.18	2,979.61
इंड एस समायोजनों का आय कर प्रभाव	(44.04)	(8.55)	(32.83)	3.74
कुल समायोजन	(2,773.83)	(3,187.36)	(2,861.13)	(3,284.69)
इंड एस के अनुसार कुल इक्विटी	30,551.76	32,303.15	30,809.43	32,587.61

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार हैं। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nse-india.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर भी उपलब्ध है।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 24 मई, 2019

कृते आरईसी लिमिटेड
अजीत कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02231613

★ फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी ★ गोल्डन पीकॉक अवार्ड ★ एनएसई मार्केट अचीवर अवार्ड ★ सीआईएमएसएमई अवार्ड

